

उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अरुण कुकसाल को मल्लिगा प्रतष्ठिति राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार

चर्चा में क्यों?

6 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. अरुण कुकसाल को उनकी चर्चित पुस्तक 'चले साथ पहाड़' के लिये 'पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतष्ठिति' राहुल सांकृत्यायन पर्यटन पुरस्कार, 2020-21 के अंतरगत प्रथम पुरस्कार के लिये चुना गया है।

प्रमुख बडि

- पौड़ी गढवाल के चामी गाँव में डॉ. अरुण कुकसाल का जन्म 8 अक्टूबर 1959 को हुआ था। वर्तमान में वे शरीकोट-श्रीनगर में रहते हैं। डॉ. अरुण कुकसाल पौड़ी के मनरेगा वभाग में लोकपाल पद पर कार्य कर रहे हैं। अरुण कुकसाल ने अब तक सात पुस्तकों की रचना की है।
- डॉ. अरुण कुकसाल हमिलयी समाज के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मुद्दों पर प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं तथा सोशल मीडिया में नियमित लेखन से जुड़े हैं। इनकी उद्यमिता विकास, यात्रा साहित्य तथा सामाजिक-सांस्कृतिक विषयक 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।
- गौरतलब है की पूर्व में डॉ. अरुण कुकसाल को उद्यमिता शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिये 'राष्ट्रीय उद्यमी उत्प्रेरणा प्रशिक्षक सम्मान' प्राप्त हुआ है।
- वर्तमान में डॉ. अरुण कुकसाल अपने पैतृक गाँव चामी में बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिये पुस्तकालय संचालन, कंप्यूटर प्रशिक्षण और कैरियर मार्गदर्शन के कार्य में सक्रिय हैं। साथ ही, लोकपाल (मनरेगा), पौड़ी (गढवाल) के पद पर अपनी विशेषज्ञ सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/famous-litterateur-of-uttarakhand-dr-arun-kuksal-will-get-the-prestigious-rahul-sankrityayan-tourism-award>